

साउथैम्प्टन विश्वविद्यालय (University of Southampton) में विदेशी विद्यार्थियों का स्वागत है

हमारे बारे में

साउथैम्प्टन विश्वविद्यालय (University of Southampton) की स्थापना सन् 1862 में हुई थी (मूलतः उसे हार्टले इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था) और आज यह यूके के चोटी के विश्वविद्यालयों में से एक है , सम्मानित रसेल समूह (यूके के 20 अग्रणी शोध विश्वविद्यालय) का सदस्य है और विश्व के 100 चोटी के विश्वविद्यालयों की श्रेणी में आता है (द टाइम्स हायर एजुकेशन सप्लीमेंट वर्ल्ड यू निवर्सिटी रैंकिंग्स) (The Times Higher Education Supplement World University Rankings)।

साउथैम्प्टन में रहना और पढ़ना एक अनूठा और आनंददायक अनुभव है। हमारी आधुनिकतम सुविधाएँ और यहाँ का सहयोगी वातावरण व्यक्तिगत सफलता और भविष्य में सु नहरे अवसरों की प्राप्ति के लिए एक प्रभावशाली मंच की रचना करते हैं।

साउथैम्प्टन विश्वविद्यालय वास्तविक अर्थों में एक विविधतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जिसमें यूरोपियन यूनियन के बाहर के 1,400 छात्रों और यूरोपियन यूनियन के बाहर के 130 विभिन्न देशों के 3,400 विदेशी छात्रों सहित कुल 22,000 छात्र पढ़ते हैं।

स्थान

विश्वविद्यालय इंग्लैंड के दक्षिणी किनारे पर एक अत्यंत उत्तम स्थान पर स्थित है , जहाँ मध्य लंदन और हीथ्रो हवाई अड्डे (Heathrow Airport) से लगभग एक घंटे में पहुँचा जा सकता है और खुले ग्रामीण क्षेत्र से भी वहाँ तक पहुँचना आसान है। हमारे पाँच कैम्पस साउथैम्प्टन में और एक विंचेस्टर में है, जो हमारे कला संकाय के छात्रों के लिए है।

साउथैम्प्टन अब भी अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह एवं एक स्पंदनशील और जीवंत शहर है। पर्यटकों के लिए आकर्षण माने जाने वाले Winchester, Salisbury और Bournemouth शहर नजदीक हैं क्योंकि यह New Forest और विश्वप्रसिद्ध Stonehenge का इलाका है। विश्वविद्यालय की बस सेवा (Uni-link) साउथैम्प्टन में विश्वविद्यालय के सभी स्थानों , शहर के केंद्र और मुख्य यातायात केंद्रों के बीच विश्वसनीय और निरंतर संपर्क उपलब्ध कराती है।

हमारे कला छात्र हमारे Winchester स्थित सुविधाओं पर आधारित हैं, जो इंग्लैंड की प्राचीन राजधानी रहा है एवं जिसकी आबादी लगभग 38,000 है। एक मतदान के अनुसार, यह इंग्लैंड में रहने लायक सर्वश्रेष्ठ स्थानों में से एक है।

विदेशी छात्रों के लिए सहायता

यूके में अध्ययन या शोध के लिए समुद्र पार से आना एक बड़ी प्रतिबद्धता है। विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय और अन्य सभी विभाग विदेशी छात्रों के नए वातावरण के साथ यथाशीघ्र अनुकूलन के लिए एकजुट होकर प्रयास करते हैं ताकि वे साउथैम्प्टन विश्वविद्यालय में अपने समय का अधिकाधिक लाभ उठा सकें।

हमारे आवासीय हालों (Halls of Residence) में विदेशी (गैर यूरोपियन यूनियन) छात्रों के लिए उनके अध्ययन की पूर्ण समयावधि के लिए आवासीय सुविधा की गारंटी है (शर्तें और नियम लागू होंगे)। अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय प्रतिवर्ष सितम्बर में लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर एक निःशुल्क सम्मेलन समारोह (Meet and Greet service) और नए छात्रों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्वागत सप्ताह का आयोजन करता है। सभी विदेशी छात्रों के लिए एक निःशुल्क और गोपनीय परामर्श सेवा भी उपलब्ध है, जिसमें विश्वविद्यालय की वीज़ा टीम द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली वीज़ा एवं आव्रजन सहायता भी शामिल है।

खेलकूद और कला संबंधी उत्कृष्ट सुविधाएँ, और 200 से अधिक क्लबों और सोसाइटीज़ (एथलेटिक यूनियन क्लब्स और मेक्सिकन, जैपनीज़, मलेशियन, परशियन, और यूरोपियन सोसाइटीज़) जैसी स्टूडेंट्स सोसाइटीज़ छात्रों को यहाँ अपने समय को आनंद से व्यतीत करने में सहायता देती हैं!

अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर देखें और यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय से संपर्क करें।

वेबसाइट: www.southampton.ac.uk/international

यू ट्यूब: <http://www.youtube.com/UoSinternational>

ट्विटर: <http://twitter.com/UniSotonIntl>

फेसबुक: <http://www.facebook.com/UoSInternationalOffice>